



# केन्द्रीय विद्यालय, आई आई टी ,पवई

KENDRIYA VIDYALAYA, IIT ,POWAI

आई आई टी परिसर, पवई, मुंबई ४००७६

I.I.T.Campus, Powai, Mumbai – 400 076

☎ (022) 25725061

फैक्स/Fax: 25721556, ✉ kviitmumbai@gmail.com

वेबसाइट/Website: kviitmumbai.com

F2715/ 7.2/केवि आईआईटी पवई/2018-19

दिनांक:16.07.2018

प्रति,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## विषय: “परीक्षा सामग्री हेतु निविदा आमंत्रण”

महोदय/महोदया,

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक केंद्र पोषित स्वायत्त निकाय है जो कि संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है। संगठन केंद्र सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है। केन्द्रीय विद्यालय आई आई टी पवई, मुंबई जो कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आने वाली शिक्षण संस्थान हैं इसकी स्थापना 1964 में की गयी थी।

2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, आई आई टी पवई, मुंबई की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा **परीक्षा सामग्री** हेतु सील बंद निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। आप के संदर्भ हेतु सूची विनिर्देशों सहित संलग्न की जा रही है (सूची संलग्न)।

### 3. निविदा मूल्य (बिड प्राइज) :

(1) ठेका केन्द्रीय विद्यालय आईआईटी पवई मुम्बई द्वारा व्यक्त सामग्री की पूर्ति हेतु दिया जाएगा निविदाकर्ता

संलग्न अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई सामग्री हेतु निविदा मूल्य प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का सुधार, यदि है, तो वह पूर्णतः काट कर, हस्ताक्षर कर तिथि सहित पुनः लिखा जायेगा।

(2) सभी देय, कर एवं अन्य भार जो कि निविदाकर्ता द्वारा देय हैं, को कुल मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर (जो कि भारतीय मुद्रा में होगी) ठेका अवधि हेतु स्थायी होगी।

(4) प्रत्येक निविदाकर्ता केवल एक निविदा प्रस्तुत करेगा।

(5) टैलेक्स अथवा कृत्रिम निविदाएं स्वीकृत नहीं की जाएंगी।

(6) निविदा, बयाना जमा राशि (**ई.एम.डी.**) : **2000 ₹.** होगी जो कि बैंकर चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से PRINCIPAL VVN KV IIT POWAI Account में देय होगी, जिसे कोटेशन निरस्त होने की स्थिति में लौटा दिया जाएगा। निविदा का अनुपालन न करने की स्थिति में बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। कोटेशन की स्थिति में बयाना राशि प्रतिभूति जमा में समायोजित की जा सकती हैं।

(7) प्रत्येक संस्था को वैट/सेल्स टैक्स /आयकर स्थायी खाता संख्या आदि के पंजीकरण के सत्यापन हेतु सहायक दस्तावेज जमा कराने होंगे।

### 4. निविदा की मान्यता :

निविदा की मान्य अवधि, निविदा खोले जाने की तिथि के बाद से अगले एक वर्ष तक होगी।



# केन्द्रीय विद्यालय, आई आई टी ,पवई

KENDRIYA VIDYALAYA, IIT ,POWAI

आई आई टी परिसर, पवई, मुंबई ४००७६

I.I.T.Campus, Powai, Mumbai – 400 076

☎ (022) 25725061

फैक्स/Fax: 25721556, ✉ kviiitmbai@gmail.com

वेबसाइट/Website: kviiitmbai.com

## 5. निविदाओं का मूल्यांकन :

क्रेता निविदाओं का मूल्यांकन एवं तुलना करेगा एवं यह तय करेगा कि कौन सी निविदा पर्याप्त अनुक्रियात्मक है जिसके अंतर्गत यह देखा जाएगा कि :

(अ) निविदा सही रूप से हस्ताक्षरित है , तथा

(ब) क्रेता द्वारा स्थापित नियम एवं शर्तों तथा विशिष्ट शर्तों से मेल खाती है। ऐसा निविदाकर्ता जो कि आंशिक मात्रा हेतु निविदा उदधृत करेगा उसे गैर- अनुक्रियात्मक माना जाएगा।

## 6. ठेके का प्रदाय :

(अ) क्रेता द्वारा उस ठेकेदार को ठेका प्रदाय किया जाएगा जिसकी निविदा पर्याप्त अनुक्रियात्मक होगी एवं जिसने न्यूनतम दर उदधृत की है जैसा कि पैरा -5 में वर्णित है।

(ब) जिस ठेकेदार की निविदा को स्वीकृत किया जाएगा उस ठेकेदार को कार्यालय द्वारा निविदा मान्यता समाप्त होने की तिथि से पहले सूचित किया जाएगा।

(स) प्रति इकाई दर में परिवर्तन अथवा अन्य कोई नियम या शर्तें यदि स्वीकृत की गयी हैं, ठेके के प्रपत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएंगी।

(द) प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं पर सामान्य वाणिज्यिक वारंटी/गारंटी लागू होगी। \*

(ई) भुगतान वस्तुओं की पूर्ति एवं स्वीकृति के पश्चात 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(फ) उपरोक्त बातों के होने पर भी क्रेता के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही ठेका देने से पूर्व निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर सकता है एवं सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर सकता है।

(ग) सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति जमा करानी होगी जो कि : ₹.2000/- होगी एवं प्रचार्य वि वि एन के वि आई आई टी पवई . फंड खाते में डी.डी. द्वारा देय होगी।

\* पंजीकृत निविदाकर्ता के संबंध में लागू नहीं।

## 7. निविदाएं प्राप्त करने हेतु अंतिम दिनांक एवं समय :

आप से अनुरोध है के आप निविदाएं केवल निर्धारित प्रारूप में बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "परीक्षा सामग्री" लिखा हो दिनांक **25.07.2018 शाम 3:00 बजे** तक या उससे पहले इस कार्यालय को स्पीड पोस्ट से भेजें। दिनांक **26.07.2018 को दोपहर 2:00 बजे निविदाएं खोली जाएंगी** तथा निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि विद्यालय के कार्यालय में निविदा खोलने के तिथि पर आमंत्रित हैं।

भवदीया,

(ममता भट्टाचार्या)

प्राचार्या

नोट : हिन्दी/अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर पाये जाने पर अंग्रेजी रूपांतरण को ही अंतिम माना जाए।